

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील -I) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, :

: सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :

: आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015. :

क फाइल संख्या : File No : V2(90)82/Ahd-III/2015-16/Appeal-I ^{2891 to 2895}

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-139-16-17

दिनांक Date : 28.10.2016 जारी करने की तारीख Date of Issue 9/11/16

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-I) Ahmedabad

ग _____ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I आयुक्तालय द्वारा जारी मूल
आदेश सं _____ दिनांक : _____ से सृजित

Arising out of Order-in-Original: 50/CE/REF/DC/2015 Date: 21.01.2016

Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Kalol, A'bad-III.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Fine care Biosystems(100%EOU)

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.



ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हों।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- षोबी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं


(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1988 की धारा 39फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1998 की धारा 63 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।


For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER IN APPEAL

This appeal has been filed by M/s Fine Care Bio Systems, 228/1/4, Dantali Ind. Owner Association, Village: Dantali, Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar, 100% EOU (hereinafter referred to as "the appellant") against Order-in-Original No.56/CE/REF/DC/2015 dated 21.01.2016 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Deputy Commissioner of Central Excise, Kalol Division, Ahmedabad-III (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. The appellant has filed a refund claim of Rs.5,73,075/- under Rule 5 of the Cenvat Credit Rules 2004 on 23.10.2015 for the quarter of July 2015 to September 2015 before the adjudicating authority in respect of input and input services credit availed on the duty paid input and input services. During scrutiny of the refund claim, it was observed that the balance of Cenvat credit available with the appellant, at the time of filing of refund claim is Rs.2,25,416/- which contravened the conditions mentioned in para 2(g) and (h) of the notification No.27/2012-CE(NT) dated 18.06.2012; that as per the said conditions 2(g), the amount of refund claimed shall not more than the amount lying in balance at the end of quarter for which refund claim is being made and 2(h) the amount that is claimed as refund under rule 5 of the said rules shall be debited by the claimant at the time of making the claim. Therefore, a show cause notice F No.V.90/18-45/CE/Ref/2015-16 dated 31.12.2015 was issued to the appellant for rejection of refund amounting to 3,47,953/-. The said notice was adjudicated by the adjudicating by sanctioning amount of Rs,2,25,122/- and rejected remaining amount of Rs.3,47,953/-.


3. Being aggrieved, the appellant had filed the present appeal *inter alia* stating that:-

- (i) The adjudicating authority has not appreciated the fact that the appellant was having credit balance of Rs.8,69,194/- at the time filing of refund claim; that they had debited the refund amount of Rs.5,73,075/- as required under the notification *ibid* and after deducting the said refund amount, the balance shown as Rs.2,25,416/-. This fact was not considered by the adjudicating authority.
- (ii) The Commissioner (Appeals) has considered the identical case and issued Order-in-Appeal dated 15.12.2015, wherein he observed merit in the above contention and remanded the case to re-examine the balance available at the time of filing of appeal.

4. A personal hearing in the matter was held on 18.10.2015 and Shri M.H.Raval, Consultant appeared before me for the same. He reiterated the submissions made earlier and submitted additional submissions.

5. I have gone through the appeal memorandum, submissions made by the appellant in the appeal memorandum as well as at the time of personal hearing.

6. I observe that the adjudicating authority has sanctioned refund claim of Rs,2,25,122/-, out of Rs.5,73,075/- and the remaining amount was rejected on the ground



that the same is not admissible as per conditions 2 (g) and (h) of the notification No.27/2012-CE dated 18.06.2012. 8. The conditions as laid down in the said notification are as under:-

- “.....
- (g) the amount of refund claimed shall not be more than the amount lying in balance at the end of quarter for which refund claim is being made or at the time of filing of the refund claim, whichever is less.
- (h) the amount that is claimed as refund under rule 5 of the said rules shall be debited by the claimant from his CENVAT credit account at the time of making the claim.”


7. As per para 13 of the impugned order, the balance lying at the time of filing of refund is as under:

S No	Name of Register	Balance amount of credit at the time of filing of claim.
1	S T Credit Register	Rs.1,61,158/-
2	Cenvat Credit Register on inputs/Capital goods	Rs. 64,258-
3	Total	Rs.2,25,416/-

8. On the other hand, it is the contention of the appellant that they have sufficient balance at the time of filing of claim, as required under the notification *ibid*; that as per condition of the notification *ibid*, they have credited the refund amount at the time of filing of claim and shown remaining amount as balance. As per contention of the appellant, I observe that the details of credit are as under:-

S No	Details	Total Credit available
1	O.B as on 01.07.2015	6,38,217/-
2	Credit taken from 01.07.2015 to 30.09.2015	5,78,2392/-
3	Total	12,16,456/-
4	Debit duty	5,26,005/-
5	C B as on 30.06.2015	6,90,451/-
6	Credit taken from 01.07.2015 to 20.08.2015	1,78,743/-
7	C B as on 20.08.2015	8,69,194/-

9. The ruling of above conditions of the notification *ibid* appears that no such credit amount shall further utilize by an assessee after filing the refund claim. As per the said conditions, the balance of Cenvat credit should be more than the amount lying in balance at the end of quarter for which refund claim is being made or at the time of submitting the claim; they should have debited the refund amount from the said credit at the time of filing the claim. As per details given by the appellant, I observe that the appellant had balance of Rs.6,90,451/- at the end of quarter i.e 30.09.2015 for which refund claim was made and Rs.8,69,194/- at the time of filing of the refund claim. I find that the adjudicating authority has not discussed anything regarding appellant's contention. In the circumstances, I find consideration merit on appellant's contention that they had



sufficient credit at the time of filing of refund claim and thereafter they debited the refund amount from the Cenvat credit. In the circumstances, the adjudicating authority needs to be verified again with regard to the balance available at the time filing of refund claim by the appellant as discussed in para above. Therefore, I remand the case to the adjudicating authority to re-examine the balance available at the time filing of claim and allow the refund as per its admissibility.

10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
10. The appeals filed by the appellant stand disposed of in above terms.

U. Shankar

(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स - I)

Date: 28/10/2016

Attested

Mohanan V.V.
(Mohanan V.V)
Superintendent (Appeal-I)
Central Excise, Ahmedabad

BY R.P.A.D.

To,
M/s Fine Care Bio Systems,
228/1/4, Dantali Ind. Owner Association,
Village: Dantali, Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar
Copy to:



1. The Chief Commissioner of Central Excise Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner of Central Excise, Ahmedabad-III.
3. The Additional Commissioner, (Systems) Central Excise, Ahmedabad - III
4. The Dy./Asstt. Commissioner, Central Excise, Division -Kadi, Ahmedabad-III
5. Guard file
6. P. A. file.